

Ref: VGL/CS/2024/17

National Stock Exchange of India Limited (NSE) Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai – 400 051 Symbol: VAIBHAVGBL Date: 1<sup>st</sup> February, 2024

BSE Limited Phiroze JeejeeBhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 532156

#### Subject: Newspaper Publication – Record Date

Dear Sir / Madam,

With respect to captioned subject, please find enclosed copy of newspaper publication published in Financial Express (English edition) and Business Remedies (Hindi edition) on 1<sup>st</sup> February, 2024.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Truly,

For Vaibhav Global Limited

Sushil Sharma Company Secretary M. No.: FCS - 6535

E-69, EPIP, Sitapura, Jaipur-302022, Rajasthan, India • Phone: 91-141-2770648, Fax: 91-141-2770510

#### FINANCIAL EXPRESS

ecurities. This is not an announcement or the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination.

#### TE LIMITED

Indian Companies Act, 1913 with the Registrar of Companies, Calcutta ('Kolkata'). A certificate of incorporation was issued on May 23, 1946 2, Kolkata, West Bengal - 700014 to Shop No 128 Supemall-2 GH-0 Circle, Infocity, Gandhinagar - 382 007, Gujarat, has been approved by

: L51109WB1946PLC013B42

loor, Flat No. 2, Kolkata, West Bengal - 700014 Circle, Infocity, Gandhinagar-382 007, Gujarat

cate.in; Website: https://www.yarnsyndicate.in/; ngh, Company Secretary

#### R. RAVI NIRANJAN PANDYA\*\*\*

RAMME		
T RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON#	
RY, 2024	21ST FEBRUARY, 2024	

ntitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.

that this Issue will not remain open in excess of 30 (Thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be

pplication No.: 185131 dated 18th September, 2023 and the application is under process. Further, Outgoing Promoters has no nexus with the

he Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB or before the Issue Closing Date or such date as maybe extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this tter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares reby offered, as set out in "Basis of Allotment" mentioned on page no. 166 of LOF.

ease note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5:00 P.M. (Indian Standard Time) or such lended time as permitted by the Stock Exchanges or such extended time as permitted by the Stock Exchange

pase ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Shareholders can mention the reference mber of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs by mention their internal reference number in place of application number.

#### OCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS:

e Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by ing the secondary market platform of the Stock Exchanges (the "On Market Renunciation"); or (b) through an off-market transfer (the "Off In the Renunciation"), during the Renunciation Period. The Shareholders should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/hei n demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by nsferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

areholders may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. areholders who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, arges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

ease note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Shareholders on or before the Issue Closing Date shall se and shall be extinguished after the Issue Closing Date

ir Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will incurred solely by the Shareholders/ Investors. On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN INE564C20013 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date i.e. 6th February, 2024, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time. The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is 1 (One) Share. To clarify further, fractional entitlements are not eligible for trading.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from 6th February, 2024 to 16th February, 2024 (both days inclusive).

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN INE564C20013 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Shareholders can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+2 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchange and the SEBI. Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date i.e. 21st February, 2024, to enable Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE564C20013, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt the state of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt the state of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt the state of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt the state of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt the state of the Rights Entitlement (the Rights Entitlement ( nstruction slip to their depository participant. The Shareholders can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitiements can be issued during the working hours of the depository participants. The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off-market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

VESTORS TO KINDLY NOTE THAT AFTER PURCHASING THE RIGHTS ENTITLEMENTS THROUGH ON MARKET RENUNCIATION/ OFF RKET RENUNCIATION, AN APPLICATION HAS TO BE MADE FOR SUBSCRIBING THE RIGHTS EQUITY SHARES. IF NO APPLICATION MADE BY THE PURCHASER OF RIGHTS ENTITLEMENTS ON OR BEFORE ISSUE CLOSING DATE THEN SUCH RIGHTS ITITLEMENTS WILL GET LAPSED AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE. NO RIGHTS EQUITY SHARES IR SUCH LAPSED RIGHTS ENTITLEMENTS WILL BE CREDITED. EVEN IF SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WERE PURCHASED FROM ARKET AND THE PURCHASER WILL LOOSE THE AMOUNT PAID TO ACQUIRE SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS.

IR PROCEDURE OF APPLICATION BY SHAREHOLDERS WHO HAVE PURCHASED THE RIGHT ENTITLEMENT THROUGH ON MARKET NUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, PLEASE REFER TO THE HEADING TITLED "PROCEDURE FOR APPLICATION ROUGH THE ASBA PROCESS" ON PAGE 146 OF THE LETTER OF OFFER.

ting and trading of the Equity Shares to be issued pursuant to this Issue

bject to receipt of the listing and trading approvals, the Equity Shares proposed to be issued on a rights basis shall be listed and admitted for ding on the Slock Exchange under ISIN IN9564C01011 until fully paid up. Unless otherwise permitted by the SEBI ICDR Regulations, the Equity ares allotted pursuant to this Issue will be listed as soon as practicable and all steps for completion of necessary formalities for listing and mmencement of trading in the Equity Shares will be taken within such period prescribed under the SEBI ICDR Regulations. Our Company has belved in-principle approval from the BSE through letter bearing reference number LOD/RIGHT/VK/FIP/1102/2023-24 dated January 12, 2024. In Company will apply to the Stock Exchange for final approval for the listing and trading of the Equity Shares subsequent to their Allotment. No surance can be given regarding the active or sustained trading in the Equity Shares or the price at which the Equity Shares offered under this ue will trade after the listing thereof.

r an applicable period, under the rules and regulations, prior to the Call Record Date, the trading of the Rights Equity Shares would be suspended. e process of corporate action for crediting the fully paid-up Rights Equity Shares to the Investors' demat accounts may take such time as is stomary or as prescribed under applicable law from the last date of payment of the account under the Call notice for the final Call. e existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip Code: 514378) under the ISIN: INE564C01013. The Rights Equity Shares shall be

dited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/trading approvals from the Stock Exchange. Upon receipt of such inc and trading approvals, the Environment of the Advised from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Environment of the Stock Exchange.



The tender document can be obtained from the office address: C/o Mother Dairy, Near Madhi Devi Mandir, Shakti Nagar, Kanpur Road, Rae Bareli, Uttar Pradesh, India, 229001 either in person/Post or by writing an email to raghvendra.singh@saamarthyamilk.com

Any corrigendum/amendment will be notified through email to the parties who have shown their written interest only. Sd/- Chief Executive

### Vaibhav Global Limited

Regd. Off.: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur- 302004

Phone: 91-141-2601020; CIN: L36911R1/389PLC004945 estor\_relations@vaibhavglobal.com; Website: www.vaibhavglobal.com

#### NOTICE OF RECORD DATE FOR THE PURPOSE OF 3" INTERIM DIVIDEND

NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and in accordance with SEBI Regulations, the Board of Directors at its meeting held on Tuesday, 30" January, 2024 has declared the 3" Interim Dividend for the Financial Year 2023-24 and the record date for the purpose of said dividend shall be Thursday, 8" February, 2024 . The said dividend shall be credited/ dispatched within 30 days from the date of declaration.

SEBI has stipulated that all listed companies shall use approved mode of payment viz direct credit, NEFT, RTGS, 'payble-at-par' warrants/ cheques etc. for the purpose of making payments to the shareholders. All the shareholders are requested to immediately update their Bank Account No., if the same has not been updated with the Company's share transfer agent or the depository participant, as the case may be. Please keep your updated email ID registered with the Company/ Depository Participant to receive timely communication.

This notice may be accessed on Company's website i.e www.vaibhavglobal.com and also on Stock Exchange websites i.e www.bseindia.com & www.nseindia.com.

	For Valbhav Global Limited
	Sd/-
Place : Jaipur	-/Sd Sushil Sharma (Company Secretary) FCS: 6535
Date : 30 <sup>th</sup> January, 2024	ECS: 6535

#### MPS LIMITED CIN: L22122TN1970PLC005795

Registered Office: RR Towers IV, 16/17, Super A, Thiru-vi-ka,

## बिज़नेस रेमेडीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड/ कंपनी फोकस

# वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही ोलिडेटेड शुद्ध बिक्री दर्ज की



2023 को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही और नौ महीनों के लिए स्टैंडअलोन स्तर पर उत्कृष्ट परिचालन और वित्तीय उपलब्धि हांसिल की है। फोकस और ऊर्जा के साथ, कंपनी रु. 6,000 करोड का कुल राजस्व प्राप्त करने के अपने लंबे अरसे के विजन को साकार करने के लिए दुढता से प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024 के तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी ने दिल्ही एनसीआर में 6,000 स्क्वेयर फूट के कंपनी शोरूम का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी एजीएल प्रोडक्ट्स के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करना है। कंपनी ने हैदराबाद के वाडबन्ट बाजार में 3,000 स्क्वेयर फुट का एक

शोरूम भी लॉन्च किया, जिसमें सभी साइज, डिजाइन और फिनिश में 700 से अधिक ग्लेज्ड विटिफाइड टाइल्स और ग्रैंड स्लैब प्रदर्शित किए गए। व्यापक बिल्डिंग मटिरियल्स सॉल्युशन्स की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक कदम में, कंपनी ने सेनेटरीवेयर विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया। टाइल्स सेगमेंट में व्यापक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क के साथ-साथ प्राप्त विश्वास के आधार पर, कंपनी सेनेटरीवेयर बाजार में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण वृद्धि की आशा करते हुए, कंपनी को उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों के भीतर डिवीजन लगभग रु. 400 करोड़ का कारोबार हासिल कर लेगा। एजीएल सेनेटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अत्याधुनिक संयंत्र का निर्माण पूरा कर लिया है। सेनेटरीवेयर प्लांट की स्थापित क्षमता 0.66 मिलियन पीस प्रति वर्ष है और कंपनी ने 1 अक्टूबर 2023 को वाणिज्यिक परिचालन श्वरू किया है।

वर्ष 2000 में स्थापित, एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड टाइल्स, इंजीनियर्ड मार्बल और क्वार्टज, सेनेटरीवेयर और फोसेट्स की एक विस्तृत श्रांखला का निर्माण और मार्केटिंग करती है।

कंपनी के पास 235 से अधिक एक्सक्लुजिव फ्रैंचाइजी शोरूम, कंपनी के स्वामित्व वाले 12 डिस्प्ले सेंटर और पूरे भारत में एक व्यापक मार्केटिंग और डिस्टीब्युशन नेटवर्क है, जिसमें भारत में वितरकों, डीलरों और उप-डीलरों सहित 14,000 से अधिक टचप्वाइंट हैं। कंपनी 100 से अधिक देशों में निर्यात भी करती है।

## ब्लू स्टार का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 72 प्रतिशत के उछाल के साथ 100.5 करोड़ रुपये रहा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।एयर कंडीशनर (एसी) और वाणिज्यिक रेफिजरेटर बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालु वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टबर-दिसंबर, 2023) में 72 प्रतिशत उछाल के साथ 100.46 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 58.41 करोड़ रुपये रहा था। ब्लू स्टार लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि आलोच्य तिमाही में उसकी परिचालन आय 25 प्रतिशत बढ़कर 2,241.19 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,794.17 करोड़ रुपये थी।

पंनीकृत कार्यालय: के-6वी, फतेह टोवा पंनीकृत कार्यालय: के-6वी, फतेह टोवा फतं: 91-141-2601020; CIN: 13 ई-मेल: investor_relations@vaibhavglobal.com	, आदर्श नगर, जयपुर-302004 6911RJ1989PLC004945
तृतीय अंतरिम लाभाश के उद्देश्य के	लिए रिकॉर्ड तिथि की सूचना
एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की नियमों एवं सेवी विनियमों के अनुसार सुचिन किया जाता है वि बैठक में निदेशक प्रण्डल द्वारा विलीय वर्ष 2023-24 हेतु रिकोर्ड तिथि मुरूवार, 8फरवरी, 2024 होगी। उपरोक्त अंतरि के पोलर ज्या, प्रवित्त किया जाएग।	ह मंगलयार, 30 जनवरी, 2024 को आयोजिन घोषित तृतीय अंतरिम लाभांश के उद्देश्य र
संबी ने निर्धारित किया है कि सभी सूचीवद्ध कंपनियां शेया । भुगतान, एनईएफटी, आरटीजीएस, 'पंथवल-एट-पार' व अनुसंदित माध्यम का उधयोग करंगी । सभी शेयर सारकों से को कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेन्ट या डियॉजिटरी प्रतिभागी व	गरंद्स/ चैक्स इत्यादि के भुगतान के लिए अनुरोध है कि वे तुरन्त अपने बैक खाता संख्य
समय पर सुचना प्राज करने के लिए कृपया अपनी नवीन प्रतिभागो के साथ पंजीकृतकरें ।	तम ई-मेल आईबो को कंपनी/ डिपॉजिटर
यह जानकारों कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.vaibh वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com और www.n	
स्थान : जयपुर दिनांक : 30 जनवरी, 2024 • यह मुचना अंग्रेजी ग्रारूप का रूपांतरण है।	कृते वैभव ग्लोबल लिमिदेड इस्ताक्षर सुशील शर्मा ( कंपनी सचिव ) FCS: 6535

## चालन लाभ में 9.5 फीसदी ी रही 6 फीसदी ग्रोथ

## में निर्माण इकाई स्थापित करेगी डाबर

के निदेशक मंडल ने दक्षिण भारत में एक नई विनिर्माण के लिए 135 करोड़ रुपये के निवेश को मंजुरी दे दी। यह आयुर्वेदिक हेल्थकेयर, पर्सनल केयर और होम केयर गे, डाबर रेड पेस्ट और ओडोनिल एयर फ्रेशनर का निर्माण लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने गरोबार दक्षिण भारत में बढ गया है और जो कि डाबर के ग्गभग 18 से 20 प्रतिशत हिस्सा है। दक्षिण भारत का थ, हमने स्थानीय मांग को बेहतर ढंग से पुरा करने के निर्माण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने पुविधा की स्थापना के लिए 135 करोड़ रुपये के निवेश को

ने बांडों के पीछे जो तिमाही के ज्ञापन खर्चों में

५ " हम अपने ने में निवेश कर न्नर्ष में 17,000 कर 100,000 न जासा है। हम

से अधिक की बढत हासिल की. जिसे दृथपेस्ट वॉल्यूम में 5 फीसदी की वृद्धि का समर्थन मिला। होम केयर व्यवसाय ने 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जबकि पेय पढार्थ व्यवसाय विकास पथ पर लौट आया और 7 फीसदी की वृद्धि के साथ तिमाही समाप्त हुई। बादशाह समेत कंपनी के फूड्स कारोबार ने तिमाही के शंत में 22 फीसदी की तदि दर्ज की।

EX	Regd. Off. : K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur-302004; Tel : 91-141-2601020; CIN : L36911RJ1989PLC004945; E-Mail : investor_relations@vaibhavglobal.com; Website : www.vaibhavglobal.com EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR TO DATE ENDED 31 DECEMBER 203 (7 in lacs, unless otherwise state					
		Consolidated				
S.	Particulars	Quarter Ended		Year to date ended		
No.	Paruculars	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)		
1	Total Income from Operations (Net)	88,833.96	72,366.54	2,25,159.37		
2	Other Income	557.58	1,441.79	1,642.19		
3	Total Income	89,391.54	73,808.33	2,26,801.56		
4	Net Profit from Ordinary Activities (before tax and exceptional items)	7,234.80	5,474.34	15,421.82		
5	Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items)	6,843.02	5,474.34	15,030.04		
6	Net Profit from Ordinary Activities after tax (after excentional items)	4 708 97	3 917 84	10 568 40		

aibhay Global Limitod

6 7 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period 7.471.41 12,097.35 (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 6.244.14 Equity Share Capital 3,308.41 3,293.45 3,308.41 9 Earnings Per Share (of ₹ 2 each) (for continuing & discontinued operations) i) Basic EPS 2.87 2.37 6.45 ii) Diluted EPS 2.82 2.33 6.32

Notes:

- The above unaudited consolidated financial results for the guarter ended 31 December 2023 and year to date ended for the period from 01 April 2023 to 31 December 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30 January 2024. These financial results for the quarter ended 31 December 2023 and year to date ended for the period from 01 April 2023 to 31 December 2023 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Parent Company
- These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015.
- 3 Current tax includes Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable, and deferred tax includes MAT credit entitlement.

Key numbers of standalone financial results of the Parent Company, i.e., Vaibhay Global Limited are as under

	Quarter Ended			
Particulars	31.12.2023 31.12.202 (Unaudited) (Unaudite			
Total Income Profit before tax	14,875.26 345.62	14,099.61 2,411.94	41,837.76 3,401.12	